

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 25—जनवरी 31, 2014 (माघ 5, 1935)

No. 4] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 25—JANUARY 31, 2014 (MAGHA 5, 1935)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 25 जनवरी 2014

रक्षा (एमएस)

संख्या: 19, दिनांक 5 दिसम्बर 2013—राष्ट्रपति, अपने अवैतनिक वैयक्तिक स्टाफ में 01 जुलाई, 2013 से निम्नलिखित नियुक्तियाँ करते हैं:--

अवैतनिक (वायु) ए.डी.सी.

1. एयर मार्शल जे चौहान, अ.वि.से.मे., वि.से.मे. (14079) एफ(पी)
2. एयर मार्शल आर के जौली, वा.मे., वि.से.मे. (14083) एफ(पी)
3. एयर मार्शल पी के राय, अ.वि.से.मे., वा.मे., वि.से.मे. (14100) एफ(पी)

के एल नन्दवानी

उप सचिव

तटरक्षक मुख्यालय

संख्या 20, दिनांक 6 दिसम्बर 13--राष्ट्रपति तटरक्षक में निम्नलिखित को, उनके समक्ष दर्शाई गई तिथि से, सहायक कमांडेंट (जी डी.सकनीकी) के रूप में नियुक्त करते हैं :-

सामान्य ड्यूटी/आयलट

क्र सं.	नाम (सर्वश्री)	नियुक्ति	कार्य आरम्भ तिथि	वैयक्तिक नंबर
(क)	रमन्नामूर्ति यारंनागू	सहायक कमांडेंट (जीडी.पीएन) वेतनमान पीबी-3 रुपये 15,600-39,100 + ग्रेड वेतनमान रु 5,400/- में नियुक्त । वे दो वर्षों वर्षों की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे।	18 जून 2012	1086-क्यू
(ख)	विपिन भारद्वाज	-उपरोक्त-	21 जून 2012	1087-एस
(ग)	योगेश सिंह	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	1088-वी
(घ)	गौरव सुहाग	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	1089-एक्स
(च)	उत्कर्ष	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	1090-सी
(छ)	विद्यासागर श्रीप्रकाश साहू	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	1091-डी
(ज)	संदीप रामरूप शुक्ला	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	1092-ई
(झ)	रंजीत दयाल	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	1093-जे
(ट)	सोनम प्रधान	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	1094-एल
(ठ)	राजकमल अत्री	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	1095- एम
(ड)	अनुपम खंडूजा	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	1096- पी
(ढ)	राजा स्वरूप येनडूलरी	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	1097-क्यू
(ण)	प्रशांत सिंह	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	1098-एस
(त)	अजेन्द्र सिंह राठी	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	1099-वी
(थ)	प्रवीन जाखर	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	1100-एक्स
(द)	रधूवेन्द्र सिंह पुंडीर	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	1101-सी
(ध)	हिमांशु शेखर	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	1102-डी
(न)	कुन्डूर वरूण	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	1103-ई
(प)	प्राची गुप्ता	-उपरोक्त-	23 जून 2012	1104-जे
(फ)	रश्मी शर्मा	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	1105-एल
(ब)	गीतिका सक्सेना	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	1106-एम
(भ)	स्वेता मैथ्यू	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	1107-पी

क्र सं.	नाम (सर्वश्री)	नियुक्ति	कार्य आरम्भ तिथि	वैयक्तिक नंबर
(म)	अभिता कुमारी राव	सहायक कमांडेंट (जीडीपीएन) वेतनमान पीबी-3 रुपये 15,600- 39,100 + ग्रेड वेतनमान रु 5,400/- में नियुक्त । वे दो वर्षों की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे।	23 जून 2012	1108-क्यू
(य)	रीतिका चौधरी	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	1109-एस
(र)	संदीप अय्यलासोमायाजुला	-उपरोक्त-	25 जून 2012	1110-वी
(ल)	अखिलेश शर्मा	-उपरोक्त-	21 जून 2012	1111-एक्स
(व)	विपिन बाबू	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	1112-सी
(श)	रोहित सिंह	-उपरोक्त-	22 जून 2012	1113-डी
(ष)	विवेन्द्र सिंह यादव	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	1114-ई
(स)	किरन कुमार टेडडीपल्ली	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	1115-जे
(त्र)	पुवनेश कुमारन नागेन्द्रन	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	1116-एल
(ज)	अवन्तिका विजय सूर्यवंशी	-उपरोक्त-	23 जून 2012	1117-एम
(कक)	प्रतीक सरकार	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	1118-पी
(कख)	विवेक सीताराम वारानसी	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	1119-क्यू
(कग)	सृष्टी रेना	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	1120- एस
(कघ)	राजीव कुमार	-उपरोक्त-	07 अगस्त 2012	1121-वी
(कच)	ऋषि प्रकाश	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	1122-एक्स
(कछ)	चैरेकल वरकी टोमी	-उपरोक्त-	13 सितम्बर 2012	1123-सी
(कज)	जय प्रकाश मोर्या	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	1124-डी
(कझ)	हंसराज भगत	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	1125-ई
(कट)	अनुज सिंह चौहान	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	1127-एल
(कठ)	अंकुर वशिष्ठ	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	1128-एम
(कड)	निखिल चावला	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	1129-पी
(कढ)	नितिश मलिक	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	1130-क्यू
(कण)	विक्रान्त यादव	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	1131-एस
(कत)	आशीष सिंह	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	1132-वी
(कथ)	प्रियेश पाठक	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	1133-एक्स

क्र सं.	नाम (सर्वश्री)	नियुक्ति	कार्य आरम्भ तिथि	वैयक्तिक नंबर
(कद)	रोहित यादव	सहायक कमांडेंट (जीडीपीएन) वेतनमान पीबी-3 रुपये 15,600- 39,100 + ग्रेड वेतनमान रु 5,400/- में नियुक्त । वे दो वर्षों की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे।	13 सितम्बर 2012	1134-सी
(कध)	कुलदीप शर्मा	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	1135-डी
(कन)	हेमंत सिंह अधिकारी	-उपरोक्त-	21 दिसम्बर 2012	1136-ई
(कप)	अंकित सिंह	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	1137-जे
(कफ)	विनोद कुमार भारद्वाज	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	1138-एल
(कब)	गौरव श्रीवास्तव	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	1139-एम
(कभ)	मनीष शर्मा	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	1140-पी
(कम)	अमित कुमार कपाटिया	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	1141-क्यू
(कय)	नरेन्द्र नाथ झा	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	1142-एस
(कर)	जतिन दुग	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	1143-वी
(कल)	जलज कादियान	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	1144-एक्स
(कव)	नितिश मैदीरता	-उपरोक्त-	22 दिसम्बर 2012	1145-सी
(कश)	अनुपम सिंह	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	1146-डी
(कष)	विवेक प्रबुध कोटीचा	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	1147-ई
(कस)	अर्जुन इड्डलम रवि	-उपरोक्त-	23 दिसम्बर 2012	1148-जे
(कत्र)	मधुर शर्मा	-उपरोक्त-	04 जनवरी 2013	1149-एल
(कज़)	संदीप सिवाच	-उपरोक्त-	21 दिसम्बर 2012	1150-एम
(खक)	नितिन हंस	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	1151-पी
(खख)	पुनीत मोहन हेगडे	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	1152-क्यू
(खग)	अरूण कुरैकोस	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	1153-एस
(खघ)	रामदास बुसा रामामूर्ति	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	1154-वी
(खच)	साहिल ओबरॉय	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	1155-एक्स
(खछ)	नवदीप सिंह	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	1156-सी
(खज)	अखिल राणा	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	1157-डी
(खझ)	हनुमंत रघुवंशी	-उपरोक्त-	22 दिसम्बर 2012	1158-ई

क्र सं.	नाम (सर्वश्री)	नियुक्ति	कार्य आरम्भ तिथि	वैयक्तिक नंबर
(खट)	श्याम भट्टाचार्य	सहायक कमांडेंट (जीडीपीएन) वेतनमान पीबी-3 रुपये 15,600- 39,100 + ग्रेड वेतनमान रु 5,400/- में नियुक्त । वे दो वर्षों की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे।	22 दिसम्बर 2012	1159-जे
(खठ)	आकांशा सिंह	-उपरोक्त-	23 दिसम्बर 2012	1160-एल
(खड)	प्रीत पोसवाल	-उपरोक्त-	21 दिसम्बर 2012	1161-एम
(खढ)	विश्रुति यादव	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	1162-पी
(खण)	सैली गोगिया	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	1163-क्यू
(खत)	साधना सिंह	-उपरोक्त-	22 दिसम्बर 2012	1164-एस
(खथ)	रंजना पंवार	-उपरोक्त-	23 दिसम्बर 2012	1165-वी
(खद)	अलागरसामी बालाजी	-उपरोक्त-	28 जनवरी 2013	1166-एक्स
(खध)	सुनिल कुमार बर्थवाल	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	1167-सी
(खन)	चन्द्र शेखर सिंह	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	1168-डी
(खप)	रोशन सिंह पाल	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	1169-ई
(खफ)	एस हुसैन	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	1170-जे
(खब)	एस एन मिश्रा	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	1171-एल
(खभ)	डी पी वी ए त्रिनाथ	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	1172-एम
(खम)	बीजूफिलिप	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	1173-पी
(खय)	राजपाल	-उपरोक्त-	08 मार्च 2013	1174-क्यू
(खर)	एम लोगानाथन	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	1175-एस
(खल)	मदन मोहन मांडी	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	1176-वी
(खव)	गौतम सोनी	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	1177-एक्स
(खश)	आर मनीकंदन	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	1178-सी
(खष)	कृष्ण कुमार	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	1179-डी
(खस)	संजय कुमार खडंगा	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	1180-ई

तकनीकी

(क)	आर एन्टोनी साग्या सेलवन	सहायक कमांडेंट (तकनीकी) वेतनमान पीबी-3 रुपये 15600- 39100 + ग्रेड वेतनमान रु 5400/- में नियुक्त । वे दो वर्षों की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे।	18 जून 2012	4236-सी
-----	-------------------------	---	-------------	---------

क्र सं.	नाम (सर्वश्री)	नियुक्ति	कार्य आरम्भ तिथि	वैयक्तिक नंबर
(ख)	प्रजाकट लक्ष्मण शिंदे	सहायक कमांडेंट (तकनीकी) वेतनमान पीबी-3 रुपये 15600- 39100 + ग्रेड वेतनमान रु 5400/- में नियुक्त । वे दो वर्षों की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे।	21 जून 2012	5142-एल
(ग)	कृष्ण कुमार सिंह	-उपरोक्त-	22 जून 2012	4237-डी
(घ)	परमजीत सिंह राठी	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	4238-ई
(च)	दीपक ठाकुर	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	5143-एम
(छ)	रवि शंकर त्रिपाठी	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	5144-पी
(ज)	प्रसन्नजीत नाथ	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	5145-क्यू
(झ)	कुलदीप दलाल	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	5146-एस
(ट)	राहुल सिन्हा	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	5147-वी
(ठ)	सुन्धांशु कुमार	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	5148-एक्स
(ड)	अनिरुध जेट्टा	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	4239-जे
(ढ)	श्रीवातसन एस	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	4240-एल
(ण)	सौरभ अखरिया	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	5149-सी
(त)	आरध्य भारद्वाज	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	5150-डी
(थ)	प्रशांत बसेडिया	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	4241-एम
(द)	रंजित रज्जपन	-उपरोक्त-	23 जून 2012	4242-पी
(ध)	प्रवीन शर्मा	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	5151-ई
(न)	के डी मिश्रा	-उपरोक्त-	07 अगस्त 2012	4243-क्यू
(प)	पी वी सुनील कुमार	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	4244-एस
(फ)	वरुण नारायण रावल	-उपरोक्त-	27 जून 2012	4245-वी
(ब)	के मूरुगेशन	-उपरोक्त-	13 सितम्बर 2012	4246-एक्स
(भ)	अभिषेक सिंह	-उपरोक्त-	22 दिसम्बर 2012	5152-जे
(म)	अयुश चन्द्र	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	5153-एल
(य)	आसकम राम मिश्रा	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	5154-एम
(र)	केरी अमरनाथ	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	5155-पी
(ल)	लिजो कुरुविला जॉन	-उपरोक्त-	23 दिसम्बर 2012	5156-क्यू
(व)	जस्टिन फ्रासिस	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	5157-एस

क्र सं.	नाम (सर्वश्री)	नियुक्ति	कार्य आरम्भ तिथि	वैयक्तिक नंबर
(श)	विशेष शर्मा	सहायक कमांडेंट (तकनीकी) वेतनमान पीबी-3 रुपये 15600-39100 + ग्रेड वेतनमान रु 5400/- में नियुक्त । वे दो वर्षों की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे।	24 दिसम्बर 2012	5158-वी
(ष)	बाला वरुण कुमार	-उपरोक्त-	22 दिसम्बर 2012	4247-सी
(स)	परीक्षित पांडे	-उपरोक्त-	04 जनवरी 2013	5159-एक्स
(त्र)	दीपक सिंह कैथात	-उपरोक्त-	05 जनवरी 2013	5160-सी
(ज़)	आशीष नागर	-उपरोक्त-	07 जनवरी 2013	5161-डी
(कक)	श्रीपाल सिंह	-उपरोक्त-	28 जनवरी 2013	5162-ई
(कख)	एस मुरुगानंदन	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	4248-डी
(कग)	आर राजीवन	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	4249-ई
(कघ)	ए एस फ़िजो	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	4250-जे
(कच)	वी वेनूगोपाल	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	5163-जे
(कछ)	सी सुनिल	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	5164-एल
(कज)	वी जी प्रवीन	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	4251-एल
(कझ)	के सुनिल	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	4252-एम
(कञ)	के वी बोनीमोन	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	4253-पी

2. राष्ट्रपति कमांडर एस के श्रीवास्तव (02160-एच) को तटरक्षक में दिनांक 01 अक्तूबर 12 से कमांडेंट के पद पर वेतनमान वेतन बैंड-4 (रुपये 37400-67000 + ग्रेड वेतनमान रु 8700/- में कमांडेंट) (सामान्य ड्यूटी) के रूप में पुनर्नियोजन के आधार पर नियुक्त करते हैं। वे दो वर्षों की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे। उनको व्यक्तिगत नंबर 1126-जे प्रदान किया गया है।

एम सुधीर बाबू
अवर सचिव (त र)

राष्ट्रीय कैडेट कोर

सं. 21, दिनांक 9 दिसम्बर 2013--नीचे दिए गए कुलपतियों को राष्ट्रीय कैडेट कोर में अवैतनिक कर्नल का रैंक दिया जाता है और उन्हें उनके संबंधित विश्वविद्यालयों में कुलपति के रूप में उनकी नियुक्ति की अवधि तक के लिए कर्नल कमांडेन्ट के रूप में नियुक्त किया जाता है जैसा कि उनके नाम के सामने दर्शाया गया है:-

क्रम सं.	कुलपति का नाम	निदेशालय का नाम	विश्वविद्यालय का नाम	कुलपति के पद पर नियुक्ति की तारीख
1	डॉ. के मुत्तुचेलियन कुलपति	टी एन पी एवं ए एन	पेरियार विश्वविद्यालय, सलेम (तमिलनाडु)	08.09.2010

2	डॉ. जी जेम्स पिच्चै कुलपति	टी एन पी एवं ए एन	भारतीयार महाविश्वविद्यालय, कोयम्बटूर (तमिलनाडु)	21.09.2012
3	डॉ. आर प्रभाकरन् कुलपति	टी एन पी एवं ए एन	तमिलनाडु वेटरिनरि और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, चैन्नई(तमिलनाडु)	19.10.2010
4	डॉ. के रामस्वामी कुलपति	टी एन पी एवं ए एन	तमिलनाडु एग्रीकल्चर, विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर (तमिलनाडु)	27.08.2012
5	डॉ. (श्रीमति) कल्यानी मदिवानन कुलपति	टी एन पी एवं ए एन	मदुरै कामराज, विश्वविद्यालय, मदुरै (तमिलनाडु)	09.04.2012
6	प्रो. व राजेन्द्रा कुलपति	एपी	श्री वेन्कटेश्वरा विश्वविद्यालय, तिरुपति (एपी)	30.06.2012
7	प्रो. के विय्यन्ना राव कुलपति	एपी	आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय, नागार्जुननगर, गुन्टूर (एपी)	19.04.2012
			(07 कुलपति)	

संजय गुप्ता

ब्रिगेडियर

उप महानिदेशक (एम एस)

राष्ट्रीय कैडेट कोर/एम एस(डी)

सं. 22, दिनांक 10 दिसम्बर 2013—राष्ट्रपति निम्नलिखित भूतपूर्व सहयोगी एनसीसी अफसरों को उनके नाम के सामने दी गई तारीखों से राष्ट्रीय कैडेट कोर में मेजर/लेफ्टिनेंट का अवैतनिक रैंक प्रदान करते हैं:-

क्रम सं.	एनसीसी नं. रैंक, नाम तथा निदेशालय	अवैतनिक रैंक	अवैतनिक रैंक प्रदान करने की तारीख
1	एनसीसी/20027, मेजर, डॉ एम वेंकटशेषु एनसीसी निदेशालय, एपी	मेजर	31.12.2011
2	एनसीसीजे/6498, चीफ आफिसर, मांगे राम गर्ग एनसीसी निदेशालय, दिल्ली	लेफ्टिनेंट	31.12.2012
3	एनसीसी/15626, मेजर, त्रिवेणी बी ठाकुर एनसीसी निदेशालय, गुजरात	मेजर	16.04.2012
4	एनसीसीजे/262132, चीफ आफिसर, टी प्रसन्ना कुमारन थाम्पी एनसीसी निदेशालय, के एवं ल	लेफ्टिनेंट	31.05.2012
5	एनसीसी/जीडी/5154, मेजर, डॉ रूपा एस शाहा एनसीसी निदेशालय, महाराष्ट्र	मेजर	19.04.2013
6	एनसीसीजे/13912, चीफ आफिसर, श्री निवास त्रिवेदी एनसीसी निदेशालय, यूपी	लेफ्टिनेंट	08.07.2012

हरीश कुमार सेठी

कर्नल

का. उप महानिदेशक (एम एस)

थल सेना विभाग

संख्या -23, तारीख 11.12.13—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :—

नियमित सेना

इन्फेन्ट्री

मैकानाइज्ड इन्फेन्ट्री रेजिमेन्ट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार विष्णु राय (जे सी-420910 एच) 01 अक्टूबर 2013

सूबेदार गिरधर प्रसाद (जे सी-420987 एल) 04 नवम्बर 2013•

- (सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2013 से दी जाती है)

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार ए आईबोचो सिंगा (जे सी-421791 के) 07 अक्टूबर 2013•

- (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2013 से दी जाती है)

नायब सूबेदार अमरेश त्रिपाठी (जे सी-422159 वाई) 10 अक्टूबर 2013•

- (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2013 से दी जाती है)

नायब सूबेदार मोरे कालू नामदेव (जे सी-422003 एफ) 24 अक्टूबर 2013•

- (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 सितम्बर 2013 से दी जाती है)

नायब सूबेदार संजीव कुमार (जे सी-421905 के) 07 अक्टूबर 2013•

- (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2013 से दी जाती है)

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार नंद किशरे झाडे (14918550 एक्स अब जे सी-422535 एफ) 09 अक्टूबर 2013•

- (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2013 से दी जाती है)

हवलदार अमरजीत लाल (14918642 के अब जे सी-422536 के) 09 अक्टूबर 2013•

- (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2013 से दी जाती है)

हवलदार ओम प्रकाश सिंह (14917894 के अब जे सी-422537 एम) 18 अक्टूबर 2013•

- (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2013 से दी जाती है)

हवलदार देवातार दिनेश कुमार वीर सिंह (14917929 पी अब जे सी-422538 पी) 18 अक्टूबर 2013•

- (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 अक्टूबर 2013 से दी जाती है)

हवलदार देश राज (14918704 वाई अब जे सी-422539 एक्स) 01 नवम्बर 2013

राजीव जौहरी
अवर सचिव

वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय

संख्या 24, तारीख 12 दिसम्बर 2013—राष्ट्रपति महोदय एयर कोमोडोर कार्यकारी/संवेतन रैंक (जेसाहू-16324 एन) आई (एल) को जो स्थाई रूप से वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय में नियुक्त हैं, उसी स्थापना में 06 दिसम्बर 2012 से एयर कोमोडोर (मूल पद) पर प्रोन्नत करते हैं।

इन्द्रजीत सेठी
अन्डर सेक्रेटरी (एचएएल)

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 25th January 2014

D (MS) SECTION

No. 19, dated the 5th December 2013—The President of India has made the following appointments on his Honorary Personal Staff with effect from 01 Jul 2013:—

1. Air Mshl J Chauhan, AVSM, VSM (14079) F(P)
2. Air Mshl RK Jolly, VM, VSM (14083) F(P)
3. Air Mshl PK Roy, AVSM, VM, VSM (14100) F(P)

K L NANDWANI
Dy Secy

COAST GUARD HEADQUARTERS

No. 20, dated the 6th December 2013—The President is pleased to appoint following as Assistant Commandant (GD/Tech) in Coast Guard with effect from the date indicated against each:—

GENERAL DUTY/PILOT/CPL/SSA

Sl. No.	Name	Appointment	Date of Joining	Personal No.
(a)	Ramanamurthy Yaranagula	Appointed as Assistant Comdt(GD/PN) in the Pay Scale of PB-3 Rs 15600—39100/- + Grade Pay Rs. 5400/- on probation of two years.	18 Jun 2012	1086-Q
(b)	Vipin Bhardwaj	-do-	21 Jun 2012	1087-S
(c)	Yogesh Singh	-do-	-do-	1088-V
(d)	Gaurav Suhag	-do-	-do-	1089-X
(e)	Utkarsh	-do-	-do-	1090-C
(f)	Vidyasagar Shriprakash Sahu	-do-	-do-	1091-D
(g)	Sandeep Ramroop Shukla	-do-	-do-	1092-E
(h)	Ranjeet Dayal	-do-	-do-	1093-J
(j)	Sonam Pradhan	-do-	-do-	1094-L
(k)	Rajkamal Attri	-do-	-do-	1095-M
(l)	Anupam Khanduja	-do-	-do-	1096-P
(m)	Raja Swaroop Yendluri	-do-	-do-	1097-Q
(n)	Prashant Singh	-do-	-do-	1098-S
(p)	Ajender Singh Rath	-do-	-do-	1099-V
(q)	Praveen Jakhar	-do-	-do-	1100-X
(r)	Raghuvendra Singh Pundir	-do-	-do-	1101-C
(s)	Himanshu Shekhar	-do-	-do-	1102-D
(t)	Kundoor Varun	-do-	-do-	1103-E
(u)	Prachi Gupta	-do-	23 Jun 2012	1104-J
(v)	Rashmi Sharma	-do-	-do-	1105-L
(w)	Geetika Saxena	-do-	-do-	1106-M

Sl. No.	Name	Appointment	Date of Joining	Personal No.
(x)	Sweta Mathew	Appointed as Assistant Comdt(GD/PN) in the Pay Scale of PB-3 Rs 15600—39100/- + Grade Pay Rs. 5400/- on probation of two years.	23 Jun 2012	1107-P
(y)	Abhita Kumari Rao	-do-	-do-	1108-Q
(z)	Ritika Chaudhary	-do-	-do-	1109-S
(aa)	Sandeep Ayyalasomayajula	-do-	25 Jun 2012	1110-V
(ab)	Akhilesh Sharma	-do-	21 Jun 2012	1111-X
(ac)	Vipin Babu	-do-	-do-	1112-C
(ad)	Rohit Singh	-do-	22 Jun 2012	1113-D
(ae)	Virendra Singh Yadav	-do-	-do-	1114-E
(af)	Kiran Kumar Tadepalli	-do-	-do-	1115-J
(ag)	Poovanesh Kumaran Nagendran	-do-	-do-	1116-L
(ah)	Avantika Vijay Suryavanshi	-do-	23 Jun 2012	1117-M
(aj)	Pratik Sarkar	-do-	-do-	1118-P
(ak)	Vivek Sitaram Varansi	-do-	-do-	1119-Q
(al)	Srishti Raina	-do-	-do-	1120-S
(am)	Rajiv Kumar	-do-	07 Aug 2012	1121-V
(an)	Rishi Prakash	-do-	-do-	1122-X
(ap)	Chirackal Varkey Tomy	-do-	13 Sep 2012	1123-C
(aq)	Jai Prakash Mourya	-do-	-do-	1124-D
(ar)	Hans Raj Bhagat	-do-	-do-	1125-E
(as)	Anuj Singh Chauhan	-do-	20 Dec 2012	1127-L
(at)	Ankur Vashishtha	-do-	-do-	1128-M
(au)	Nikhil Chawla	-do-	-do-	1129-P
(av)	Nitish Malik	-do-	-do-	1130-Q
(aw)	Vikrant Yadav	-do-	-do-	1131-S
(ax)	Ashish Singh	-do-	-do-	1132-V
(ay)	Priyesh Pathak	-do-	-do-	1133-X
(az)	Rohit Yadav	-do-	-do-	1134-C
(ba)	Kuldeep Sharma	-do-	-do-	1135-D
(bb)	Hemant Singh Adhikari	-do-	21 Dec 2012	1136-E
(bc)	Ankit Singh	-do-	-do-	1137-J
(bd)	Vinod Kumar Bhardwaj	-do-	-do-	1138-L
(be)	Gaurav Shrivastava	-do-	-do-	1139-M
(bf)	Manish Sharma	-do-	-do-	1140-P
(bg)	Amit Kumar Kapatia	-do-	-do-	1141-Q
(bh)	Narendranath Jha	-do-	-do-	1142-S
(bj)	Jatin Dugg	-do-	-do-	1143-V

Sl. No.	Name	Appointment	Date of Joining	Personal No.
(bk)	Jalaj Kadian	Appointed as Assistant Comdt(GD/PN) in the Pay Scale of PB-3 Rs 15600—39100/- + Grade Pay Rs. 5400/- on probation of two years.	21 Dec 2012	1144-X
(bl)	Nitish Mendhiratta	-do-	22 Dec 2012	1145-C
(bm)	Anupam Singh	-do-	-do-	1146-D
(bn)	Vivek Prabodh Kotecha	-do-	23 Dec 2012	1147-E
(bp)	Arjun Edayilliam Ravi	-do-	-do-	1148-J
(bq)	Madhur Sharma	-do-	04 Jan 2013	1149-L
(br)	Sandeep Siwach	-do-	21 Dec 2012	1150-M
(bs)	Nitin Hans	-do-	-do-	1151-P
(bt)	Puneeth Mohan Hegde	-do-	-do-	1152-Q
(bu)	Arun Kuriakose	-do-	-do-	1153-S
(bv)	Ramdas Bussa Ramamurthy	-do-	-do-	1154-V
(bw)	Sahil Oberoi	-do-	-do-	1155-X
(bx)	Navdeep Singh	-do-	-do-	1156-C
(by)	Akhil Rana	-do-	-do-	1157-D
(bz)	Hanumant Raghuvanshi	-do-	22 Dec 2012	1158-E
(ca)	Shayan Bhattacharya	-do-	-do-	1159-J
(cb)	Akanksha Singh	-do-	23 Dec 2012	1160-L
(cc)	Preeti Poswal	-do-	21 Dec 2012	1161-M
(cd)	Vishruti Yadav	-do-	-do-	1162-P
(ce)	Shaily Gogia	-do-	-do-	1163-Q
(cf)	Sadhana Singh	-do-	22 Dec 2012	1164-S
(cg)	Ranjana Panwar	-do-	23 Dec 2012	1165-V
(ch)	Alagarsamy Balaji	-do-	28 Jan 2013	1166-X
(cj)	Sunil Kumar Barthwal	-do-	-do-	1167-C
(ck)	Chander Shekhar Singh	-do-	-do-	1168-D
(cl)	Roshan Singh Pal	-do-	-do-	1169-E
(cm)	S Hussain	-do-	-do-	1170-J
(cn)	SN Mishra	-do-	-do-	1171-L
(cp)	DPVA Trinadh	-do-	-do-	1172-M
(cq)	Biju Philip	-do-	-do-	1173-P
(cr)	Raj Pal	-do-	08 Mar 2013	1174-Q
(cs)	M Loganathan	-do-	-do-	1175-S
(ct)	Madan Mohan Mandi	-do-	08 Mar 2013	1176-V
(cu)	Gautam Soni	-do-	-do-	1177-X
(cv)	R Manikandan	-do-	-do-	1178-C
(cw)	Krishan Kumar	-do-	-do-	1179-D
(cx)	Sanjay Kumar Khadanga	-do-	-do-	1180-E

TECHNICAL

Sl. No.	Name	Appointment	Date of Joining	Personal No.
(a)	R Anthoni Sagaya Selvan	Appointed as Assistant Comdt (Technical) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15600—39100/- + Grade Pay Rs. 5400/- on probation of two years.	18 Jun 2012	4236-C
(b)	Prajakt Laxamn Shinde	-do-	21 Jun 2012	5142-L
(c)	Krishan Kumar Singh	-do-	22 Jun 2012	4237-D
(d)	Paramjeet Singh Rathee	-do-	-do-	4238-E
(e)	Deepak Thakur	-do-	-do-	5143-M
(f)	Ravi Shankar Tripathi	-do-	-do-	5144-P
(g)	Prasanjeet Nath	-do-	-do-	5145-Q
(h)	Kuldeep Dalal	-do-	-do-	5146-S
(j)	Rahul Sinha	-do-	-do-	5147-V
(k)	Sundhanshu Kumar	-do-	-do-	5148-X
(l)	Anirudh Jetta	-do-	-do-	4239-J
(m)	Srivatsan S	-do-	-do-	4240-L
(n)	Saurabh Akharia	-do-	-do-	5149-C
(p)	Aaradhya Bharadwaj	-do-	-do-	5150-D
(q)	Prashant Basedia	-do-	-do-	4241-M
(r)	Renjith Rajappan	-do-	23 Jun 2012	4242-P
(s)	Parveen Sharma	-do-	-do-	5151-E
(t)	KD Mishra	-do-	07 Aug 2012	4243-Q
(u)	PV Sunil Kumar	-do-	-do-	4244-S
(v)	Varun Narayan Raval	-do-	27 Jun 2012	4245-V
(w)	Krishnamoorthy Murugesan	-do-	13 Sep 2012	4246-X
(x)	Abhishek Singh	-do-	22 Dec 2012	5152-J
(y)	Ayush Chandra	-do-	-do-	5153-L
(z)	Aptakam Ram Mishra	-do-	-do-	5154-M
(aa)	Karri Amarnath	-do-	-do-	5155-P
(ab)	Lijo Kuruvilla John	-do-	23 Dec 2012	5156-Q
(ac)	Jestin Francis	-do-	-do-	5157-S
(ad)	Vishesh Sharma	-do-	24 Dec 2012	5158-V
(ae)	Bala Varun Kumar	-do-	22 Dec 2012	4247-C
(af)	Parikshit Pandey	-do-	04 Jan 2013	5159-X
(ag)	Deepak Singh Kathait	-do-	05 Jan 2013	5160-C
(ah)	Ashish Nagar	-do-	07 Jan 2013	5161-D

Sl. No.	Name	Appointment	Date of Joining	Personal No.
(aj)	Shripal Singh	Appointed as Assistant Comdt (Technical) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15600-39100/- + Grade Pay Rs. 5400/- on probation of two years.	28 Jan 2013	5162-E
(ak)	S Muruganandam	-do-	-do-	4248-D
(al)	R Rajeevan	-do-	-do-	4249-E
(am)	AS Frijo	-do-	-do-	4250-J
(an)	V Venugopal	-do-	-do-	5163-J
(ap)	Cherukara Sunil	-do-	-do-	5164-L
(aq)	VG Praveen	-do-	-do-	4251-L
(ar)	K Sunil	-do-	-do-	4252-M
(as)	KV Bonymon	-do-	-do-	4253-P

2. The President is pleased to appoint Commander SK Srivastava (02160-H) as Commandant (General Duty) in Coast Guard on re-employment basis in the Pay Band-4 (Rs. 37400—67000+ Grade Pay Rs. 8700/-) w.e.f. 01 Oct 2012. He will be on probation for a period of two years w.e.f. 01 Oct 2012. He has been allotted Personal Number 1126-J.

M SUDHEER BABU
Under Secretary

NATIONAL CADET CORPS

No. 21, dated the 9th December 2013—The undermentioned Vice Chancellors are granted the honorary rank of Colonel in the National Cadet Corps and are appointed as Colonel Commandant of their respective University as shown against their name for the period of their appointment as Vice Chancellor of the said University:—

Sl. No.	Name of the Vice Chancellor	Name of the Directorate	Name of the University	Date of appointment as Vice Chancellor
1.	Dr K Muthuchelian, Vice Chancellor	TNP&AN	Periyar University, Salem-636011	08 Sep 2010
2.	Dr G James Pitchai Vice Chancellor	TNP&AN	Bharathiar University, Coimbatore-641046	21 Sep 2012
3.	Dr R Prabakaran Vice Chancellor	TNP&AN	Tamilnadu Veterinary and Animal Sciences University, Chennai-51	19 Oct 2010
4.	Dr K Ramasamy Vice Chancellor	TNP&AN	Tamilnadu Agricultural University, Coimbatore-641003	27 Aug 2012
5.	Dr (Mrs) Kalyani Mathivanan Vice Chancellor	TNP&AN	Madurai Kamaraj University, Madurai-625021	09 Apr 2012
6.	Prof W Rajendra Vice Chancellor	AP	Sr Venkateswara University, Tirupati	30 Jun 2012
7.	Prof K Viyyanna Rao Vice Chancellor	AP	Acharya Nagarjuna University, Nagarjunanagar-522510	19 Apr 2012

(07 Vice Chancellors)

SANJAY GUPTA
Brig
Dy Dir Gen (MS)

NCC/MS(D)

No. 22, dated the 10th December 2013—The President is pleased to grant honorary rank of Major /Lieutenant in the NCC to the following Ex-Associate NCC Officers, from the dates mentioned against their names:—

Sl. No.	NCC No., Rank, Name, and Dte	Honorary Rank awarded	Date from which awarded
1.	NCC/20027 Major Dr. M. Venkateseshu NCC Dte, AP	Major	31 Dec 2011
2.	NCCJ/6498 Chief Officer Mange Ram Garg NCC Dte, Delhi.	Lt	31 Dec 2012
3.	NCC/15626 Major Triveni B. Thakur NCC Dte, Gujarat	Major	16 Apr 2012
4.	NCCJ/262132 Chief Officer T Prasanna Kumaran Thampi NCC Dte, K&L	Lt	31 May 2012
5.	NCC/GD/5154 Major Dr Rupa S Shaha NCC Dte, Mah	Major	19 Apr 2013
6.	NCCJ/13912 Chief Officer Sri Niwas Trivedi, NCC Dte, UP	Lt	08 Jul 2012

HK SETHI

Col

Offg Dy Dir Gen (MS)

ARMY BRANCH

No. 23, dated 11th December 2013—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT

To be Subs Sub Maj (GD)

Sub Vishnu Rai (JC-420910H), 01 Oct 2013

Sub Girdhar Parshad (JC-420987L), 04 Nov 2013*

*(Granted seniority in the rank of substantive Sub Major wef 01st Nov 2013 without effect on pay and allowances)

To be Subs Sub (GD)

Nb Sub A Ibochow Singha (JC-421791K), 07 Oct 2013*

*(Granted seniority in the rank of substantive Sub wef 01 Sep 2013 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Amresh Tripathi (JC-422159Y), 10 Oct 2013*

*(Granted seniority in the rank of substantive Sub wef 01 Sep 2013 without effect on pay and allowances)

Nb Sub More Kalu Namdev (JC-422003F), 24 Oct 2013*

*(Granted seniority in the rank of substantive Sub wef 15 Sep 2013 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Sanjeev Kumar (JC-421905K), 07 Oct 2013*

*(Granted seniority in the rank of substantive Sub wef 01 Oct 2013 without effect on pay and allowances)

To be Nb Sub (GD)

Hav Nand Kishre Jshade (No. 14918550X Now JC-422535F), 09 Oct 2013*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2013 without effect on pay and allowances)

Hav Amarjit Lal (No. 14918642K Now JC-422536K), 09 Oct 2013*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2013 without effect on pay and allowances)

Hav Om Prakash Singh (No. 14917894K Now JC-422537M), 18 Oct 2013*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2013 without effect on pay and allowances)

Hav Devatar Dinesh Kumar Vir Sinh (No. 14917929P Now JC-422538P), 18 Oct 2013*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 06 Oct 2013 without effect on pay and allowances)

Hav Desh Raj (No. 14918704Y Now JC-422539X), 01 Nov 2013

RAJEEV JAUHARI
Under Secy

DIRECTORATE GENERAL OF AERONAUTICAL QUALITY ASSURANCE

No. 24, dated the 12 December 2013—The President is pleased to make the following promotion:—

2. Air Commodore (acting/paid rank) J Sahu (16324-N), AE (L) permanently seconded to DGAQA to be Air Commodore (substantive rank) in the same establishment with effect from 06 December 2012

INDERJEET SETHI
Under Secy

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2014
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS,
N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2014
www.dop.nic.in